

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 7]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 2 जनवरी 2018—पौष 12, शक 1939

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 जनवरी 2018

क्रमांक-बी-8-12-2017-चौदह-2.—भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक 13015-03-2016-क्रेडिट II, दिनांक 23 फरवरी 2016 एवं 23 फरवरी 2017 द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत मौसम रबी वर्ष 2017-18 में पटवारी हल्का, तहसील एवं जिला स्तर की फसलों की सूची असाधारण राजपत्र क्रमांक 532 दिनांक 3-10-2017 एवं 543 दिनांक 11-10-2017 जारी की गई थी. जारी अधिसूचना के अतिरिक्त संलग्न सूची अनुसार पटवारी हल्का के समक्ष अंकित फसलों को सम्मिलित/विलोपित किया जाता है. मौसम रबी वर्ष 2017-18 के लिये पटवारी हल्कावार जिला धार, आगर मालवा एवं इंदौर की संशोधित अधिसूचना जारी की जाती है एवं पटवारी हल्कों के समक्ष अंकित फसलों के लिये परिभाषित क्षेत्र घोषित किया जाता है:—

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रबी हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार पटवारी हल्को की सूची

निम्नलिखित पटवारी हल्कों के समक्ष दर्शाई गई फसलों को सम्मिलित किया जाता है								
मौसम	रबी	वर्ष	2017-2018	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफलवाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची				
जिला	तहसील	रा.नि.म.का नाम	पटवारी हल्का न.	पटवारी मुख्यालय का नाम	गेहूँ सिंचित	गेहूँ असिंचित	धना	राई-सरसों
धार	धार	धार						
			00054	देदला	गेहूँ सिंचित		चना	
धार	धार	नालछा						
			00181	ईमलीपुरा	गेहूँ सिंचित			
धार	डही	डही						
			00023	कलमानी	गेहूँ सिंचित		चना	
धार	मनावर	मनावर						
			00016	कलवानी	गेहूँ सिंचित		चना	
			00017	लाखनकोट	गेहूँ सिंचित		चना	
			00018	भग्यापुर	गेहूँ सिंचित		चना	
			00019	बनेडिया	गेहूँ सिंचित		चना	
			00022	टोंकी	गेहूँ सिंचित		चना	
			00024	निगरनी	गेहूँ सिंचित		चना	
			00025	बडगांव	गेहूँ सिंचित		चना	
			00031	रणतालाव	गेहूँ सिंचित		चना	
			00033	सिंघाना	गेहूँ सिंचित		चना	
			00035	बोरुद	गेहूँ सिंचित		चना	
			37	देवला	गेहूँ सिंचित		चना	
			00041	लिम्बी	गेहूँ सिंचित		चना	
			00042	पिपरीमान	गेहूँ सिंचित		चना	
			00045	मेहताखेडी	गेहूँ सिंचित		चना	
			47	डोगरगांव			चना	
			00048	कोसवाडा	गेहूँ सिंचित		चना	
			00049	माण्डवी	गेहूँ सिंचित		चना	
			00050	गणपुर	गेहूँ सिंचित		चना	
			00052	अजन्दीकोट	गेहूँ सिंचित		चना	
			00057	लंगुर	गेहूँ सिंचित		चना	
			00063	अजन्दा	गेहूँ सिंचित		चना	
			00064	जौतपुर	गेहूँ सिंचित		चना	
धार	मनावर	बाकानेर						
			00065	पेरखड	गेहूँ सिंचित		चना	
			00074	सुराणी	गेहूँ सिंचित			
			00096	अहेरवास	गेहूँ सिंचित			
			00115	झीर्वी	गेहूँ सिंचित		चना	
			00117	जलखेडा	गेहूँ सिंचित		चना	
			00119	कुवाली	गेहूँ सिंचित		चना	
			00120	मिर्जापुर	गेहूँ सिंचित		चना	
धार	कुक्षी	कुक्षी						

			00071	तलावडी	गेहूँ	सिंचित		
			00078	कुक्षी	गेहूँ	सिंचित		चना
धार	कुक्षी	निसरपुर						
			00087	सुसारी	गेहूँ	सिंचित		चना
			00088	खजराना	गेहूँ	सिंचित		चना
			00089	लोणी	गेहूँ	सिंचित		चना
			00102	लिंगवा	गेहूँ	सिंचित		चना
			00103	दाहोद	गेहूँ	सिंचित		चना
			00104	खण्डवा	गेहूँ	सिंचित		चना
			00105	देशवालया	गेहूँ	सिंचित		चना
			00106	रतवा	गेहूँ	सिंचित		चना
			00117	पिपल्या	गेहूँ	सिंचित		चना
			00119	चिखन्दा	गेहूँ	सिंचित		चना
			00120	सिसगांव	गेहूँ	सिंचित		चना
धार	धर्मपुरी	धरमपुरी						
			00006	बगवानीया	गेहूँ	सिंचित		चना
			00007	सरजापुर	गेहूँ	सिंचित		चना
			00021	जेतापुरा	गेहूँ	सिंचित		चना
			00023	दहीवर	गेहूँ	सिंचित		चना
			00024	पलास्या	गेहूँ	सिंचित		चना
			00025	धामनोद	गेहूँ	सिंचित		चना
			00026	बिखरोन	गेहूँ	सिंचित		चना
			00027	पंडरान्या	गेहूँ	सिंचित		चना
			00028	मेहगांव	गेहूँ	सिंचित		चना
			00053	बलवाडा	गेहूँ	सिंचित		चना
धार	गंधवानी	गंधवानी						
			00035	बैकल्या	गेहूँ	सिंचित		
			00039	सोयला	गेहूँ	सिंचित		
			00043	बखतला	गेहूँ	सिंचित		
			00049	साली	गेहूँ	सिंचित		
			00064	जेहडी	गेहूँ	सिंचित		

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रबी हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार पटवारी हल्को की सूची

मौसम	रबी	वर्ष	2017-2018	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफलवाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची				
निम्नलिखित पटवारी हल्कों के समक्ष दर्शाई गई फसलों को सम्मिलित किया जाता है								
जिला	तहसील	रा.नि.म.का नाम	पटवारी हल्का न.	पटवारी मुख्यालय का नाम	गेहूँ सिंचित	गेहूँ असिंचित	चना	राई-सरसों
आगर मालवा	आगर	02.कानड	00023	लाडवन			चना	
आगर मालवा	बडौद	1 बडौद	00002	महुडियाबडौद			चना	
			00007	किशनकोट			चना	
			00008	झलारा बडौद			चना	
			00010	खाताखेडी रामनगर			चना	
			00011	कस्बा बडौद			चना	
आगर मालवा	बडौद	02.बीजानगरी						
			00024	गुडभेली आगर			चना	
			00028	बर्डीबरखेडा			चना	
आगर मालवा	बडौद	03.झोटा						
			00042	देवलीपिपलोन			चना	
			00045	अलसिया			चना	
आगर मालवा	सुसनेर	01 सोयतकला						
			00001	बराई			चना	
			00002	गुराडिया सोयत			चना	
			00005	सोयत पट्टी			चना	
			00006	सोयतकला			चना	
			00008	खेरियासोयत			चना	
			00010	देहरिया सोयत			चना	
			00011	सोयतखुर्द			चना	
			00013	कोठडा			चना	
			00015	गुन्दलावदा			चना	
			00016	मोडी			चना	
			00019	खजुरी			चना	
आगर मालवा	सुसनेर	02.सुसनेर						
			00021	मेहतपुर			चना	
			00029	बोरखेडी कांवल			चना	
			00033	बामन्याखेडी			चना	
			00036	खेरीया सुसनेर			चना	
आगर मालवा	नलखेडा	02 बडागांव						
			00019	पनाला	गेहूँ सिंचित			
			00021	पिपल्यासेत	गेहूँ सिंचित			
			00023	भैसोदा	गेहूँ सिंचित			
			00029	ठिकरिया	गेहूँ सिंचित			
			00030	कुशलपुरा	गेहूँ सिंचित			
			00037	गोदलमऊ			चना	
			00039	लाडोन	गेहूँ सिंचित			
			00041	गुराडियाखारी			चना	

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
 प्रधानमंत्री कसल बीजा योजना रबी हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार पटवारी हल्को की सूची
 निम्नलिखित पटवारी हल्कों के समक्ष दर्शाई गई फसलों को सम्मिलित किया जाता है

मौसम	रबी	वर्ष	2017-2018	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफलवाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची				
जिला	तहसील	रा.नि.म.का नाम	पटवारी हल्का न.	पटवारी मुख्यालय का नाम	गेहूँ सिंचित	गेहूँ असिंचित	चना	राई-सरसों
इन्दौर	इन्दौर	राऊ-1						
			00001	छोटा बांगडदा	गेहूँ सिंचित			
			00002	नैनोद	गेहूँ सिंचित			
			00003	रिजलाय	गेहूँ सिंचित		चना	
			00004	कलारिया	गेहूँ सिंचित			
			00005	बिसनावदा	गेहूँ सिंचित			
			00006	सिंहासा	गेहूँ सिंचित			
			00009	अहिरखेडी	गेहूँ सिंचित		चना	
			00010	नावदापथ	गेहूँ सिंचित		चना	
			00012	नरलाय	गेहूँ सिंचित			
			00019	माचला	गेहूँ सिंचित			
			00020	केलोदकर्ताल	गेहूँ सिंचित			
			00021	मोरोद नेहरु	गेहूँ सिंचित			
			00022	उमरीखेडा	गेहूँ सिंचित			
			00023	असरावदखुर्द	गेहूँ सिंचित			
			00024	मिर्जापुर	गेहूँ सिंचित			
			00025	रालामंडल	गेहूँ सिंचित			
			00031	निपानिया	गेहूँ सिंचित			
			00034	केलोदहाला	गेहूँ सिंचित			
			00037	अरंडिया	गेहूँ सिंचित			
इन्दौर	इन्दौर	कनाडिया-3						
			00038	पानोड	गेहूँ सिंचित			
			00039	झलारिया	गेहूँ सिंचित			
			00040	बिसनखेडा	गेहूँ सिंचित			
			00041	खातिपिलया	गेहूँ सिंचित			
			00042	बुरानाखेडी	गेहूँ सिंचित			
			00043	हरनखेडी	गेहूँ सिंचित		चना	
			00044	सेमलयाचाऊ	गेहूँ सिंचित			
			00046	गारिया	गेहूँ सिंचित		चना	
			00047	चौहानखेडी	गेहूँ सिंचित			
इन्दौर	इन्दौर	भिचौलीहप्पी -4						
			00048	बेगमखेडी	गेहूँ सिंचित			
			00050	गारिपिलया	गेहूँ सिंचित			
			00051	असरावदबुजुर्ग	गेहूँ सिंचित			
			00052	बडियाकिमा	गेहूँ सिंचित			
			00053	भिचौलीहप्पी	गेहूँ सिंचित			
			00058	सनावदिया	गेहूँ सिंचित			
			00060	उमरियाखुर्द	गेहूँ सिंचित			
			00061	जामन्या खुर्द	गेहूँ सिंचित			

			00062	बिहाडिया	गेहूँ	सिंचित		
			00063	तिल्लौर खुर्द	गेहूँ	सिंचित		चना
			00064	काचरोट	गेहूँ	सिंचित		
			00065	तिल्लौरबुजुर्ग	गेहूँ	सिंचित		चना
			00066	मुण्डल्लादोस्तदार	गेहूँ	सिंचित		
			00067	सोनवाय	गेहूँ	सिंचित		
			00068	धमनाय	गेहूँ	सिंचित		चना
			00077	पिवडाय	गेहूँ	सिंचित		
			00078	पिपल्दा	गेहूँ	सिंचित		चना
			00079	कम्पेल	गेहूँ	सिंचित		
इन्दौर	इन्दौर	खुडैल-5						
			00045	गोगाखेडी	गेहूँ	सिंचित		
			00069	सिन्धीबडोदा	गेहूँ	सिंचित		चना
			00070	काजिपलासिया	गेहूँ	सिंचित		
			00071	खुडैलबुजुर्ग	गेहूँ	सिंचित		चना
			00072	खुडैलखुर्द	गेहूँ	सिंचित		
			00073	अरन्धा	गेहूँ	सिंचित		
			00074	गेहली	गेहूँ	सिंचित		
			00075	बावलयाखुर्द	गेहूँ	सिंचित		
			00076	मोरोदहाट	गेहूँ	सिंचित		चना
			00080	पेडमी	गेहूँ	सिंचित		चना
			00081	सेमल्यारायमल	गेहूँ	सिंचित		चना
			00082	खण्डेल	गेहूँ	सिंचित		चना
			00083	शिवनी	गेहूँ	सिंचित		चना
इन्दौर	महू							
			00003	पिगडुबर	गेहूँ	सिंचित		
			00005	नावदा	गेहूँ	सिंचित		
			00006	महुगांव	गेहूँ	सिंचित		
			00007	सातर	गेहूँ	सिंचित		
			00013	अवलाय	गेहूँ	सिंचित		
			00015	फफून्द	गेहूँ	सिंचित		
			00016	सिलोदिया	गेहूँ	सिंचित		
			00017	सीतापाट	गेहूँ	सिंचित		
			00018	नांदेड	गेहूँ	सिंचित		
			00019	भिचौली	गेहूँ	सिंचित		
			00020	कुवाली	गेहूँ	सिंचित		
			00021	बेरछा (वेदर तोपखाना)	गेहूँ	सिंचित		
			00022	कैलोद	गेहूँ	सिंचित		
			00028	गवली पलासिया	गेहूँ	सिंचित		
इन्दौर	महू	मानपुर-2						
			00029	बडगाँदा	गेहूँ	सिंचित		
			00030	मेण	गेहूँ	सिंचित		चना
			00033	हासलपुर	गेहूँ	सिंचित		
			00034	कदमपुर	गेहूँ	सिंचित		

			00035	जाकखेडी	गेहूँ	सिंचित		
			00036	सिहोद	गेहूँ	सिंचित		चना
			00037	दुर्जनपुरा	गेहूँ	सिंचित		
			00038	शेरपुर	गेहूँ	सिंचित		चना
			00039	जाफरबाद	गेहूँ	सिंचित		चना
			00040	कांकरिया	गेहूँ	सिंचित		
			00041	मानपुर	गेहूँ	सिंचित		
			00042	रामपुरिया खुर्द	गेहूँ	सिंचित		
			00043	कोलानी	गेहूँ	सिंचित		
			00044	काली किराय	गेहूँ	सिंचित		
			00045	गोकल्या कुण्ड	गेहूँ	सिंचित		
			00046	नाहरखेडी	गेहूँ	सिंचित		
			00047	खुर्दा	गेहूँ	सिंचित		
			00048	खुर्दा	गेहूँ	सिंचित		
			00049	छापूरिया	गेहूँ	सिंचित		
			00050	जामखुर्द	गेहूँ	सिंचित		
			00051	जामबुजूर्ग	गेहूँ	सिंचित		चना
			00053	मांगल्या	गेहूँ	सिंचित		
			00054	बशीचिपरी	गेहूँ	सिंचित		
इन्दौर	महू	सिमरोल-3						
			00052	पिपल्या	गेहूँ	सिंचित		
			00055	मलेंडी	गेहूँ	सिंचित		
			00056	कोदरिया	गेहूँ	सिंचित		
			00057	गुजरखेडा	गेहूँ	सिंचित		
			00058	नेऊगुराडिया	गेहूँ	सिंचित		
			00060	भंगौरा	गेहूँ	सिंचित		चना
			00061	अम्बाचदन	गेहूँ	सिंचित		चना
			00062	हरसीला	गेहूँ	सिंचित		चना
			00063	दतोदा	गेहूँ	सिंचित		चना
			00064	मेमदी	गेहूँ	सिंचित		
			00065	सिमरोल	गेहूँ	सिंचित		
			00066	शिवनगर	गेहूँ	सिंचित		
			00068	घोसीखेडा	गेहूँ	सिंचित		
			00070	बाईग्राम	गेहूँ	सिंचित		
			00071	गुजारा	गेहूँ	सिंचित		
			00072	राजपुरा	गेहूँ	सिंचित		
			00073	कुलथाना	गेहूँ	सिंचित		
			00074	चोरल	गेहूँ	सिंचित		
			00075	गंवालू	गेहूँ	सिंचित		
इन्दौर	सावेर	सावेर-1						
			00001	बुडानियापथ	गेहूँ	सिंचित		
			00002	खामोद आजना	गेहूँ	सिंचित		
			00003	पोटलोद	गेहूँ	सिंचित		
			00004	चितोडा	गेहूँ	सिंचित		
			00005	बालरिया	गेहूँ	सिंचित		
			00006	गुलावट	गेहूँ	सिंचित		

			00007	हिण्डोलिया	गेह	सिंचित		
			00008	बडोदिया खान	गेह	सिंचित		
			00009	कायस्थ खेडी	गेह	सिंचित		
			00010	पानोड	गेह	सिंचित		
			00011	बिलोदा नायता	गेह	सिंचित		
			00012	सिमरोल	गेह	सिंचित		
			00013	जामोदी	गेह	सिंचित		
			00014	कुडाना	गेह	सिंचित		
			00015	कस्बा सावेर	गेह	सिंचित		
			00016	पचोला	गेह	सिंचित		
			00017	नागपुर	गेह	सिंचित		
			00018	मण्डोत	गेह	सिंचित		
			00019	बलगरा	गेह	सिंचित		
			00020	खलखला	गेह	सिंचित		
			00021	खेतडिया बज्जात	गेह	सिंचित		
			00022	हरियाखेडी	गेह	सिंचित		
			00023	पिपल्या कायस्थ	गेह	सिंचित		
			00024	कछालिया	गेह	सिंचित		
			00025	अजनोद	गेह	सिंचित		
इन्दौर	सावेर	धरमपुरी-2						
			00026	टाकून	गेह	सिंचित		
			00027	बालोदा टाकून	गेह	सिंचित		
			00028	धतूरिया	गेह	सिंचित		
			00029	गवला	गेह	सिंचित		
			00030	कजलाना	गेह	सिंचित		
			00031	तराना	गेह	सिंचित		
			00032	राजोदा	गेह	सिंचित		
			00033	कटक्या	गेह	सिंचित		
			00034	सोलसिन्दा	गेह	सिंचित		
			00035	मुरादपुरा	गेह	सिंचित		
			00036	भवरासला	गेह	सिंचित		
			00038	भाग्या	गेह	सिंचित		
			00039	मगरखेडा	गेह	सिंचित		
			00040	पंचडेरिया	गेह	सिंचित		
			00041	बजरंग पालिया	गेह	सिंचित		
			00042	धनखेडी	गेह	सिंचित		
			00043	ब्राह्मण पिपल्या	गेह	सिंचित		
			00044	दर्जीकराडिया	गेह	सिंचित		
इन्दौर	सावेर	क्षिप्रा-3						
			00045	गुरान	गेह	सिंचित		
			00046	मकोडिया	गेह	सिंचित		चना
			00047	पूवार्डाहप्पा	गेह	सिंचित		
			00048	पूवार्डादाई	गेह	सिंचित		
			00049	हतूनिया	गेह	सिंचित		

			00050	कदवा	गेह	सिंचित		
			00051	बरलाई जागीर	गेह	सिंचित		
			00052	बूढी बरलाई	गेह	सिंचित		
			00053	पीर कराडिया	गेह	सिंचित		
			00054	डकाच्या	गेह	सिंचित		
			00055	टोड़ी	गेह	सिंचित		चना
			00056	रामूपिपल्या	गेह	सिंचित		
			57	ढाबली	गेह	सिंचित		
			00058	मांगल्या सडक	गेह	सिंचित		
			00059	लसुडिया परमार	गेह	सिंचित		
			00060	सुलाखेडी	गेह	सिंचित		
			00061	कदवाली बुजुर्ग	गेह	सिंचित		चना
			00062	पलासिया	गेह	सिंचित		
			00063	मण्डलावदा	गेह	सिंचित		
			00064	कदवाली खुर्द	गेह	सिंचित		
			00065	फरसपुर	गेह	सिंचित		चना
			00066	व्यासखेडी	गेह	सिंचित		चना
इन्दौर	देपालपुर	गौतमपुरा-1						
			00001	गिरोता	गेह	सिंचित		चना
			00002	पिरनलवासा	गेह	सिंचित		चना
			00003	फुलान	गेह	सिंचित		चना
			00004	बहिरामपुर	गेह	सिंचित		
			00005	तलावली	गेह	सिंचित		चना
			00006	छडोदा	गेह	सिंचित		चना
			00007	जलोदियाजान	गेह	सिंचित		
			00008	धर्माट	गेह	सिंचित		चना
			00009	चान्दनखेडी	गेह	सिंचित		
			00010	पाडल्या	गेह	सिंचित		चना
			00011	भीलबडोली	गेह	सिंचित		चना
			00012	कस्बा गौतमपुरा	गेह	सिंचित		चना
			00013	बछोडा	गेह	सिंचित		चना
			00014	रलासता	गेह	सिंचित		चना
			00015	अत्याना	गेह	सिंचित		चना
			00016	सातेर	गेह	सिंचित		चना
			00017	फरकोदा	गेह	सिंचित		चना
			00018	मंडकवास	गेह	सिंचित		चना
			00019	पितावली	गेह	सिंचित		चना
			00020	कडोदा	गेह	सिंचित		चना
			00021	गुडर	गेह	सिंचित		चना
			00022	रुद्राख्या	गेह	सिंचित		चना
			00023	सुनाला	गेह	सिंचित		
			00024	कटकोदा	गेह	सिंचित		
			00025	काई	गेह	सिंचित		
			00026	जलालपुरा	गेह	सिंचित		चना
			00027	गोकुलपुर	गेह	सिंचित		चना

			00028	भिडौता	गेह	सिंचित		
			00029	जलोदियापार	गेह	सिंचित		
इन्दौर	देपालपुर	देपालपुर-2						
			00030	लिम्बोदीपार	गेह	सिंचित		चना
			00031	सेमदा	गेह	सिंचित		चना
			00032	खटवाडी	गेह	सिंचित		चना
			00033	कस्बा देपालपुर	गेह	सिंचित		चना
			00034	बिरगौदा	गेह	सिंचित		चना
			00035	बनेडिया	गेह	सिंचित		चना
			00036	खिमलावदा	गेह	सिंचित		
			00037	अटाहेडा	गेह	सिंचित		चना
			00038	करजोदा	गेह	सिंचित		
			00039	देवराखेडी	गेह	सिंचित		चना
			00040	बान्याखेडी	गेह	सिंचित		चना
			00041	खांडिया	गेह	सिंचित		
			00042	शाहपुरा	गेह	सिंचित		चना
			00043	नान्द्रा	गेह	सिंचित		चना
			00044	गंगाजलखेडी	गेह	सिंचित		चना
			00045	बडोली-हौज	गेह	सिंचित		चना
			00046	तकीपुरा	गेह	सिंचित		चना
			00047	खडी	गेह	सिंचित		
			00048	खजराया	गेह	सिंचित		चना
			00049	बेगन्दा	गेह	सिंचित		चना
			00050	आरोदाकोट	गेह	सिंचित		चना
			00051	छोटी कलमेर	गेह	सिंचित		चना
			00052	चांदेर	गेह	सिंचित		चना
			00053	हरनासा	गेह	सिंचित		चना
इन्दौर	देपालपुर	बेटमा-3						
			00054	जलोदियापथ	गेह	सिंचित		
			00055	चटवाडा	गेह	सिंचित		चना
			00056	चिकलौदा	गेह	सिंचित		
			00057	संगडोद	गेह	सिंचित		चना
			00058	शिवगढ	गेह	सिंचित		चना
			00059	दौलताबाद	गेह	सिंचित		
			00060	रंगवासा	गेह	सिंचित		
			00061	सेजवानी	गेह	सिंचित		चना
			00062	रामबडोदिया	गेह	सिंचित		चना
			00063	घाटाबिल्लोद	गेह	सिंचित		चना
			00064	सांगवी	गेह	सिंचित		
			00065	मेठवाडा	गेह	सिंचित		चना
			00066	झलारिया	गेह	सिंचित		चना
			00067	रावद	गेह	सिंचित		चना
			00068	सनावदा	गेह	सिंचित		चना
			00069	रौलाय	गेह	सिंचित		
			00070	बोरिया	गेह	सिंचित		
			00071	बोरसी	गेह	सिंचित		

			00072	औरंगपुरा	गेहूँ	सिंचित		
			00073	रेयतपुरा उर्फ राजपुरा	गेहूँ	सिंचित		
			00074	ललेडीपुरा	गेहूँ	सिंचित		
			00075	कालसूरा	गेहूँ	सिंचित		
			00076	कम्बा बेटमा खास	गेहूँ	सिंचित		
			00077	पीर पिपल्या	गेहूँ	सिंचित		
			00078	सलमपुर	गेहूँ	सिंचित		
			00079	रणमल बिल्लौद	गेहूँ	सिंचित		
			00080	काली बिल्लौद	गेहूँ	सिंचित		
			00081	चिराखान	गेहूँ	सिंचित		
			00082	बजरंगपुरा	गेहूँ	सिंचित		
			00083	ब्रिजपुर	गेहूँ	सिंचित		
			00084	मांचल	गेहूँ	सिंचित		
			00085	गलोडा	गेहूँ	सिंचित		
			00086	धरावरा	गेहूँ	सिंचित		
			00087	धन्नाड	गेहूँ	सिंचित		
			00088	बगोदा	गेहूँ	सिंचित		
इन्दौर	हातोद	आगरा-1						
			00001	मूरखेडा	गेहूँ	सिंचित		चना
			00002	हसनाबाद	गेहूँ	सिंचित		
			00003	पिपलोदा	गेहूँ	सिंचित		
			00004	आगरा	गेहूँ	सिंचित		चना
			00005	अहिरखेडी	गेहूँ	सिंचित		चना
			00006	सुमठा	गेहूँ	सिंचित		
			00007	अरन्या	गेहूँ	सिंचित		
			00008	बदरखा	गेहूँ	सिंचित		
			00009	जम्बूडी सरवर	गेहूँ	सिंचित		
			00010	काकरियापाल	गेहूँ	सिंचित		
			00011	जिन्दाखेडा	गेहूँ	सिंचित		
			00012	बसान्द्रा	गेहूँ	सिंचित		
			00023	सिकन्द्री	गेहूँ	सिंचित		
			00024	उषापुरा	गेहूँ	सिंचित		
			00025	आंकासोदा	गेहूँ	सिंचित		
			00026	नेवरी	गेहूँ	सिंचित		चना
			00027	अटावदा	गेहूँ	सिंचित		चना
			00028	अजन्दा	गेहूँ	सिंचित		
			00029	गोहान	गेहूँ	सिंचित		
			00030	कराडिया	गेहूँ	सिंचित		चना
			00031	पंथ बडोदिया	गेहूँ	सिंचित		
			00032	गुलावट	गेहूँ	सिंचित		
इन्दौर	हातोद	हातोद-2						
			00013	माताबरोडी	गेहूँ	सिंचित		
			00014	बघाना	गेहूँ	सिंचित		
			00015	सतलाना	गेहूँ	सिंचित		

			00016	अलवासा	गेहूँ	सिंचित		
			00018	पालिया हैदर	गेहूँ	सिंचित		
			00019	कांकरिया बोर्डिया	गेहूँ	सिंचित		
			00020	खजूरिया	गेहूँ	सिंचित		
			00021	हातोद	गेहूँ	सिंचित		
			00022	रोजडी	गेहूँ	सिंचित		
			00033	बडी कलमेर	गेहूँ	सिंचित		चना
			00034	जम्बूडीहप्पी	गेहूँ	सिंचित		
			00035	बुढानिया	गेहूँ	सिंचित		
			00036	लिम्बोदागारी	गेहूँ	सिंचित		
			00037	बडाबांगडदा	गेहूँ	सिंचित		

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रबी हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार पटवारी हल्को की सूची
 निम्नलिखित पटवारी हल्कों के समक्ष दर्शाई गई फसलों को विलोपित किया जाता है

मौसम	रबी	वर्ष	2017-2018	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफलवाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची				
जिला	तहसील	रा.नि.म.का नाम	पटवारी हल्का न.	पटवारी मुख्यालय का नाम	गेहूँ सिंचित	गेहूँ असिंचित	चना	राई-सरसों
इंदौर			7	बांक	गेहूँ	सिंचित		चना
			8	सिरपूर	गेहूँ	सिंचित		चना
			11	सिन्दौड़ा	गेहूँ	सिंचित		चना
			13	रंगवासा	गेहूँ	सिंचित		चना
			14	सुखनिवास	गेहूँ	सिंचित		चना
			15	हुकमाखेड़ी	गेहूँ	सिंचित		चना
			16	बिजलपुर	गेहूँ	सिंचित		चना
			18	राऊ	गेहूँ	सिंचित		चना
इंदौर		इंदौर-2	17	निहालपुर मुंडी	गेहूँ	सिंचित		चना
			26	लिंबोदी	गेहूँ	सिंचित		चना
			27	बिलावली	गेहूँ	सिंचित		चना
			28	कस्बा इंदौर	गेहूँ	सिंचित		चना
			29	पिपलयाहाना	गेहूँ	सिंचित		चना
			30	खजराना	गेहूँ	सिंचित		चना
			32	सुखालिया	गेहूँ	सिंचित		चना
			33	भानगढ़	गेहूँ	सिंचित		चना
			35	तलावलीचांद	गेहूँ	सिंचित		चना
			36	लसुडियामोरी	गेहूँ	सिंचित		चना
			57	मुण्डलानायता	गेहूँ	सिंचित		चना
			49	कनाडिया	गेहूँ	सिंचित		
इंदौर	महू	महू-1	54	भिचौलीमर्दाना	गेहूँ	सिंचित		चना
			55	देवगुराडिया	गेहूँ	सिंचित		चना
			56	पालदा	गेहूँ	सिंचित		चना
			59	दुधिया	गेहूँ	सिंचित		चना
			1	भैसलाय	गेहूँ	सिंचित		चना
			2	सोनवाय	गेहूँ	सिंचित		चना
			4	उमरिया	गेहूँ	सिंचित		चना

			8	हरन्याखेड़ी	गेहूँ	सिंचित		चना
			9	कवटी	गेहूँ	सिंचित		चना
			10	टिही	गेहूँ	सिंचित		चना
			11	भाटखेड़ी	गेहूँ	सिंचित		चना
			12	बंजारी	गेहूँ	सिंचित		चना
			14	पांजरिया	गेहूँ	सिंचित		चना
			23	जामली	गेहूँ	सिंचित		चना
			24	केशरबर्डी	गेहूँ	सिंचित		चना
			25	आकवी	गेहूँ	सिंचित		चना
			26	डोंगरगांव	गेहूँ	सिंचित		चना
			27	गांगल्याखेड़ी	गेहूँ	सिंचित		चना
			31	यशवन्तनगर	गेहूँ	सिंचित		चना
			32	राजपुरा कूटी	गेहूँ	सिंचित		चना
			59	चोरडिया	गेहूँ	सिंचित		चना
			67	जोशीगुराडिया	गेहूँ	सिंचित		चना
			69	सेण्डल	गेहूँ	सिंचित		चना
इंदौर	सांवेर		37	कुभेडी	गेहूँ	सिंचित		चना
इंदौर	हातोद		17	रेवती	गेहूँ	सिंचित		चना
			38	टिगरिया बादशाह	गेहूँ	सिंचित		चना